

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 02 नवंबर 2022

प्रश्न -1

भारत में पैदल सेना दिवस कब मनाया गया?

- A) 01 नवंबर
- B) 30 अक्टूबर
- C) 27 अक्टूबर
- D) 26 अक्टूबर

सही उत्तर: C

भारतीय सेना की सबसे बड़ी लड़ाकू शाखा इन्फैंट्री के योगदान को स्वीकार करने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस मनाया जाता है।

प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किसे विचार की स्वतंत्रता के लिए 2022 का सखारोव पुरस्कार मिला है?

- A) यूक्रेन की जनता
- B) मलाला यूसुफजई
- C) दलाई लामा
- D) एलेक्सी नवलनी

सही उत्तर: A

यूक्रेन के लोगों को यूरोपीय संसद द्वारा विचार की स्वतंत्रता के लिए वार्षिक सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

प्रश्न -3

निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया था?

- A) गुजरात
- B) मध्य प्रदेश
- C) राजस्थान
- D) उत्तर प्रदेश

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 02 नवंबर 2022

सही उत्तर: A

गुजरात को हाल ही में 100% हर घर जल राज्य के रूप में घोषित किया गया था। हर घर जल के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पाने पर पीएम मोदी ने गुजरात के लोगों के उत्साह की प्रशंसा की।

प्रश्न -4

'प्लेन लैंग्वेज एक्ट' निम्नलिखित में से किस देश द्वारा पारित किया गया था?

- A) ऑस्ट्रेलिया
- B) फ्रांस
- C) न्यूजीलैंड
- D) संयुक्त राज्य अमेरिका

सही उत्तर: C

न्यूजीलैंड ने 'प्लेन लैंग्वेज एक्ट' पारित किया है, जिसके लिए नौकरशाहों को जनता के साथ संवाद करते समय सरल, आसानी से समझी जाने वाली भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

प्रश्न -5

निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मिनिर्काय थुंडी बीच और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया?

- A) पुडुचेरी
- B) लक्षद्वीप
- C) गोवा
- D) अंडमान और निकोबार

सही उत्तर: B

लक्षद्वीप के समुद्र तटों- मिनिर्काय थुंडी बीच और कदमत बीच को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय इको-लेबल "ब्लू फ्लैग" प्रमाणन प्रदान किया गया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 02 नवंबर 2022

प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस देश में COP27, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी?

- A) मिस्र
- B) पेरू
- C) पोलैंड
- D) स्पेन

सही उत्तर: A

जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक, COP27 (पार्टियों का सम्मेलन) 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म-अल-शेख में होगी।

प्रश्न -7

FIH प्रो लीग 2022-2023 के लिए, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया था?

- A) गुरजंत सिंह
- B) हरमनप्रीत सिंह
- C) मनदीप सिंह
- D) मनप्रीत सिंह

सही उत्तर: B

हॉकी इंडिया ने भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग 2022-2023 के लिए 22 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में हरमनप्रीत सिंह को नामित किया है।

प्रश्न -8

वैश्विक गरिमा दिवस 2022 कब मनाया गया?

- A) 18 अक्टूबर
- B) 19 अक्टूबर
- C) 17 अक्टूबर
- D) 16 अक्टूबर

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 02 नवंबर 2022

सही उत्तर: B

हर साल अक्टूबर के तीसरे बुधवार को वैश्विक गरिमा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष वैश्विक गरिमा दिवस 19 अक्टूबर को मनाया गया।

प्रश्न -9

निम्नलिखित में से किस राज्य में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है?

- A) गुजरात
- B) महाराष्ट्र
- C) राजस्थान
- D) उत्तर प्रदेश

सही उत्तर: A

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गुजरात के त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है।

प्रश्न -10

_____ को भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

- A) आर. वेंकटरमणि
- B) प्रदीप खरोला
- C) मुकुल रोहतगी
- D) आर्यमा सुंदरम

सही उत्तर: B

पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव, प्रदीप सिंह खरोला को भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।